

May 12, 2025

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051

Department of Corporate Services/Listing
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

NSE Symbol: APOLLOPIPE

SCRIP Code: 531761

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisements of the Audited Financial Results for the quarter and year ended on March 31, 2025

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of Newspaper Advertisements published in the Business Standard (English & Hindi edition) on May 12, 2025 with respect to the Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025.

The advertisement also includes a Quick Response code and the weblink to access complete financial results for the said period. The above information is being uploaded on the website of the Company at www.apollopipes.com.

Kindly take the above information on your records.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Apollo Pipes Limited

Gourab Kumar Nayak
Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above

APOLLO PIPES LIMITED

Regd. Office : 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092, India

Corporate Office : A-140, Sector 136, Noida (U.P.) - 201301

Manufacturing Unit : Dadri (U.P.), Sikandrabad (U.P.), Ahmedabad (Gujarat), Tumkur (Karnataka), Raipur (Chhattisgarh) India

Toll Free No.: 1800-121-3737

info@apollopipes.com | www.apollopipes.com | CIN : L65999DL1985PLC022723

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|---------------------------------|
|  Regd. Off: 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110001, Ph:-011-23357171, 23357172, 23705414, Web:- www.pnbhousing.com BRANCH ADDRESS: 1st Floor, Pinacle Tower, Vaishali Corner, Garh Road, Meerut-250004, (U.P.) BRANCH ADDRESS: Building No. S-8, Uphar Cinema Complex, Green Park extn, New Delhi-110016 | | | | |
| POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTIES) | | | | |
| Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the PNB Housing Finance Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & in compliance of Rule 8(1) of Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notice/s on the date mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/ date of receipt of the said notice/s. The borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/ies described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned against each account. | | | | |
| The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of PNB Housing Finance Ltd., for the amount and interest thereon as per loan agreement. The borrowers' attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. | | | | |
| Loan Account No(s) & Branch | Name of The Borrower (Co-Borrower & Guarantor) | Date Of Demand Notice | Amount Outstanding | Date of Possession Taken |
| HOU/ MEE/ 0518/ 534333 B.O.: Meerut | Mr. Balvinder Singh & Mrs. Simran Kaur | 12.09.2024 | Rs. 19,09,118.71/- (Rupees Nineteen Lakhs Nine Thousand One Hundred Eighteen and Seventy One Paise Only) | 08.05.2025 (Physical) |
| HOU/GRP/ 0117/347108 B.O.: Green Park | Mrs. Pooja A Kumar (Borrower) & Mr. Amit Kumar (Co-Borrower) | 22.02.2025 | Rs. 87,24,402.30/- (Rupees Eighty Seven Lakhs Twenty Four Thousand Four Hundred Two And Thirty Paise Only) | 08.05.2025 (Symbolic) |
| HOU/GRP/ 0317/387871 B.O.: Green Park | Mr. Sidharth Sharma (Borrower) & Mrs. Anika (Co-Borrower) | 22.02.2025 | Rs. 78,14,263.07/- (Rupees Seventy Eight Lakhs Fourteen Thousand Two Hundred Sixty Three And Seven Paise Only) | 08.05.2025 (Symbolic) |
| SD/- AUTHORIZED OFFICER, PNB HOUSING FINANCE LIMITED | | | | |

| | |
|--|---------------|
|  Branch: Sitapura, Jaipur | |
| POSSESSION NOTICE [Section 13(4)] (For Immovable Property) | |
| Whereas: The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 03-03-2025 calling upon the Borrowers:- SHRI BABU LAL SAINI to repay the amount mentioned in the notice, being Rs.8,46,069.00 (Rupees Eight Lakhs Forty Six Thousands and Sixty Nine Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. | |
| The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Rule on this 08th Day of May of the Year 2025 . | |
| The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for the amount of Rs.8,46,069.00 (Rupees Eight Lakhs Forty Six Thousands and Sixty Nine Only) plus further interest thereon. | |
| The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. | |
| DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY | |
| All that part and parcel of the property consisting of RESIDENTIAL FLAT N.O.L-B/IV/07, FOURTH FLOOR, BLOCK-B KNOWN AS VASUNDHARA KUTUMB SITUATED AT VILLAGE BILWA KALAN, TEHSIL-SANGANER, NEAR CHOKH DHANI, TONK ROAD, JAIPUR, Boundaries:- EAST- FLAT N.O.L-B/IV/08, WEST- FLAT N.O.L-B/IV/06, NORTH- OPEN TO SKY, SOUTH-CORRIDOR | |
| Date:- 08.05.2025 | Place: Jaipur |
| Authorised Officer, Canara Bank | |

Public Notice

It is to be informed that Board Meeting of M/s WELD ALLOY PRODUCTS LIMITED is to be held on 19th day of May, 2025, Monday at 03:00 P.M at its work office situated at D-51-52, EPIP, UPSIDC, Site- V Kasna, Greater Noida – 201301

M.P. STATE ELECTRONICS DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

State IT Centre, 47-A, Arera Hills, Bhopal-462011 (M.P.)
Web : www.mpsedc.mp.gov.in, Ph. No. : 0755-2518300
E-mail : marketing@mpsdc.com

NOTICE INVITING TENDERS (NIT)

MPSEDC invites online proposals for following bids on MP Tender :-

| S.No. | Tender No. | NIT |
|-------|--------------------------------|---|
| 1 | MPSEDC/SDC/2025/618 | RFP for New Rate Contract and Engagement of Managed Services Provider (MSP) for Providing Cloud Services at MPSEDC. |
| 2 | MPSEDC/MKT/SWAN/2025/SDWAN/619 | RFP for Deployment & Integration of SDWAN Solution Within MPSWAN. |

For detailed scope of work, terms and conditions please refer to the respective bid document available on MP Tender Portal (www.mptenders.gov.in).

M.P. Madhyam/120028/2025 **CHIEF GENERAL MANAGER**

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT



SYSTEMATIC INDUSTRIES LIMITED

CIN: U27320MH2000PLC125313

Our Company was incorporated on March 24, 2000 as "Systematic Intel Industries Limited" a Public Limited Company under the provisions of the Companies Act, 1956 pursuant to a Certificate of Incorporation issued by the Registrar of Companies, Mumbai bearing registration number 11-125313. We commenced commercial operations pursuant to a Certificate for Commencement of Business dated November 14, 2002 issued by the Registrar of Companies, Mumbai. Thereafter, our Company was converted into a private limited company, pursuant to a special resolution passed by the members of our Company at the Extra Ordinary General Meeting held on May 20, 2003 and consequently, the name of our Company was changed from "Systematic Intel Industries Limited" to "Systematic Intel Industries Private Limited" vide a fresh Certificate of Incorporation consequent upon Change of Name was issued by the Registrar of Companies, Mumbai dated August 01, 2003. Further, a fresh Certificate of Registration of the Special Resolution consequent upon Alteration of Object Clause(s) dated September 10, 2003 issued by Registrar of Companies, Mumbai. Thereafter, pursuant to a special resolution passed by the members of our Company at the Extra Ordinary General Meeting held on April 09, 2012, the name of our Company was changed from "Systematic Intel Industries Private Limited" to "Systematic Industries Private Limited" vide a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was issued by the Registrar of Companies, Mumbai vide certificate on April 26, 2012 bearing U25200MH2000PTC125313. Subsequently, our Company was converted into a public limited company, pursuant to a special resolution passed by the members of our Company at the Extra Ordinary General Meeting held on November 12, 2024 and consequently, the name of our Company was changed from "Systematic Industries Private Limited" to "Systematic Industries Limited" vide a fresh Certificate of Incorporation consequent upon Conversion to public company dated December 06, 2024, issued to our Company by the Registrar of Companies, Central Processing Centre, Manesar bearing U25200MH2000PLC125313. Further, a fresh Certificate of Registration of the Special Resolution consequent upon Alteration of Object Clause(s) dated March 27, 2025 issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre, Manesar, bearing CIN: U27320MH2000PLC125313. For details of change in Registered office of our Company, please refer to chapter titled **"History and Corporate Structure"** beginning on page 180 of the Draft Red Herring Prospectus.

Registered Office: 418, 4th Floor, Nirmal Corporate Center, L.B.S. Marg, Mulund (West), Mumbai - 400080, Maharashtra, India.

Tel No: +91 -22 - 41383900; **E-mail:** cs@systematicindustries.com; **Website:** <https://systematicindustries.com/>

Contact Person: Dimple Lalwani, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTERS: SIDDHARTH RAJENDRA AGARWAL & SATYA RAJENDRA AGRAWAL

“THE OFFER IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED (“BSE SME”).”

THE OFFER

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 59,28,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF SYSTEMATIC INDUSTRIES LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") AT AN OFFER PRICE OF ₹(●) PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹(●) PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹(●) LAKHS COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UPTO 55,28,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING TO ₹(●) LAKHS (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UPTO 4,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH BY THE SIDDHANT ISPAT PRIVATE LIMITED (THE "SELLING SHAREHOLDER") AGGREGATING TO ₹(●) LAKHS ("OFFER FOR SALE") ("PUBLIC OFFER"); THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO (●) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹(●) PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹(●) LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET OFFER OF UP TO (●) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹(●) PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹(●) LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE PUBLIC OFFER AND NET OFFER WILL CONSTITUTE (●) % AND (●) % RESPECTIVELY OF THE POST- OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹10/- EACH. THE OFFER PRICE IS (●) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE SELLING SHAREHOLDER MAY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF (●) (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), ALL EDITIONS OF (●) (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER AND MARATHI EDITION OF (●) REGIONAL DAILY NEWSPAPER (MARATHI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF MUMBAI (WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED) EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO SME PLATFORM OF BSE ("BSE SME"), FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITE IN ACCORDANCE WITH SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (THE "SEBI ICDR REGULATIONS").

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period shall be extended for at least three additional working days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/Offer Period not exceeding 10 working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company and the Selling Shareholder in consultation with the Book Running Lead Manager for reasons to be recorded in writing extend the Bid/Offer Period for a minimum of one working Day, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchange by issuing a press release and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Manager and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs"), other Designated Intermediaries and the Sponsor Banks, as applicable.

This offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "SCRR") read with Regulation 22.9 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253(1) and 253(2) of the SEBI ICDR Regulations read with SEBI ICDR (Amendment) Regulations, 2025, wherein not more than 50.00% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company and the selling shareholder in consultation with the BRLMs may allocate up to 60.00% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("Anchor Investor Portion"). One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of undersubscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, other than Anchor Investors, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, the SEBI ICDR Regulations read with SEBI ICDR (Amendment) Regulations, 2025, states that not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Individual Investors who applies for minimum application size. Not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Investors of which one-third of the Non-Institutional Portion will be available for allocation to Bidders with an application size of more than two lots and up to such lots as equivalent to not more than ₹10.00 Lakhs and two-thirds of the Non-Institutional Portion will be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹10.00 Lakhs and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other sub-category of Non-Institutional Portion. Subject to the availability of shares in non-institutional investors' category, the allotment to each Non-Institutional Investors shall not be less than the minimum application size in Non-Institutional Category and the remaining available Equity Shares, if any, shall be allocated on a proportionate basis in accordance with the conditions specified in this regard in Schedule XIII of the SEBI (ICDR) (Amendment) Regulations, 2025. All Potential Bidders, other than Anchor Investors, are required to participate in the Offer by mandatorily utilising the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, please refer to the chapter titled **"Offer Procedure"** on page 330 of the Draft Red Herring Prospectus.

This public announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 247(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Company is proposing to undertake, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its Equity Shares of face value ₹10 each pursuant to the Offer and the Draft Red Herring Prospectus dated May 09, 2025 and has been filed with SME Platform of BSE Limited ("BSE SME") on May 09, 2025. The Draft Red Herring Prospectus filed with BSE SME shall be made public, for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of filing, by hosting it on the website of BSE SME at <https://www.bsesme.com/PublicIssues/SME/PODRHP.aspx>, on the website of the BRLM at www.hemsecurities.com and also on the website of the Company <https://systematicindustries.com/>. The Company invites public to give comments on the Draft Red Herring Prospectus filed with BSE SME with respect to disclosures made in the Draft Red Herring Prospectus. The public is requested to send a copy of the comments to the Company Secretary & Compliance Officer of the Company and/or to the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by our Company and/or the Company Secretary & Compliance Officer of our Company, and/or to the BRLM in relation to the offer on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the Draft Red Herring Prospectus with BSE SME.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and Bidders should not invest any funds in the offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Bidders are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the offer. For taking an investment decision, Bidders must rely on their own examination of our Company and the offer, including the risks involved. The equity shares in the offer have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to **"Risk Factors"** on page 37 of the Draft Red Herring Prospectus.

Any decision to invest in the equity shares described in the Draft Red Herring Prospectus may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with the Registrar of Companies (ROC) and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the Draft Red Herring Prospectus. The equity shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on SME Platform of BSE Limited ("BSE SME"). For details of the share capital and capital structure of our Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them of the Company, see **"Capital Structure"** beginning on page 70 of the Draft Red Herring Prospectus. The liability of the members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in our Memorandum of Association, see **"History and Corporate Structure"** beginning on page 180 of the Draft Red Herring Prospectus.

The BRLM associated with the Issue has handled 61 Public Issues in the past three years, out of which 2 issue was closed below the Issue/ Offer Price on listing date:

| Name of BRLM | Total Issue | | Issue closed below IPO Price on listing date |
|--|-------------|-----|---|
| | Mainboard | SME | |
| Hem Securities Limited | 2 | 59 | 2 (SME) |
| BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE OFFER | | | REGISTRAR TO THE OFFER |
|  HEM SECURITIES LIMITED Address: 904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Lower Parel, Mumbai-400013, Maharashtra, India Tel. No.: +91 - 22 - 4906 0000; Email: ib@hemsecurities.com Investor Grievance Email: redressa@hemsecurities.com ; Website: www.hemsecurities.com Contact Person: Ajay Jain; SEBI Regn. No. INM000010981; CIN: U67120RJ1995PLC010390 | | |  CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED Address: "Subramanian Building", No.1, Club House Road, Chennai-600002, Tamil Nadu, India. Tel No.: +91- 44 - 4002 0700/2846 0390; Email: ipo@cameoindia.com Website: www.cameoindia.com ; Investor Grievance Email: investor@cameoindia.com Contact Person: Ms. K Sreepriya; Designation: Vice President & Company Secretary SEBI Registration Number: INR000003753; CIN: U67120TN1998PLC041613 |
| COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER | | | |
| Dimple Lalwani Systematic Industries Limited Registered Office: 418, 4th Floor, Nirmal Corporate Center, L.B.S. Marg, Mulund (West), Mumbai - 400080, Maharashtra, India. Telephone: +91 - 22 - 41383900; Email: cs@systematicindustries.com ; Website: https://systematicindustries.com/ | | | |

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Draft Red Herring Prospectus.

For and on behalf of the Board of Directors
Systematic Industries Limited

Sd/-
Dimple Lalwani
Company Secretary and Compliance Officer

Disclaimer: Systematic Industries Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Draft Red Herring Prospectus on May 09, 2025. The Draft Red Herring Prospectus is available on the website of BSE SME at <https://www.bsesme.com/PublicIssues/SME/PODRHP.aspx> and is available on the websites of the BRLM at www.hemsecurities.com and also on the website of the Company <https://systematicindustries.com/>. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled **"Risk Factors"** beginning on page 37 of the Draft Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the Draft Red Herring Prospectus for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the **"Securities Act"**) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

Markets, Insight Out

Markets,
Monday to Saturday

To book your copy,
sms reachbs
to 57575 or
email order@bsmail.in



APOLLO PIPES LIMITED

CIN: L65999DL1985PLC022723

Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi - 110092

Corp. Office: Plot No. A- 140, Sector 136, Noida, U.P.- 201301

Email: compliance@apollopipes.com, **Website:** www.apollopipes.com

Extract of statement of Audited Standalone Financial Results for the quarter and Year ended March 31, 2025

| S. No. | | Quarter ended | | Year ended | |
|--------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | 31.03.2025 (Un-audited) | 31.03.2024 (Audited) | 31.03.2025 (Un-audited) | 31.03.2024 (Audited) |
| 1 | Total Income | 24352.67 | 24611.51 | 93047.98 | 98104.24 |
| 2 | EBIDTA | 2498.57 | 2524.27 | 8994.77 | 9925.42 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 1283.85 | 1542.47 | 4215.91 | 6444.25 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) | 1283.85 | 1542.47 | 4215.91 | 6444.25 |
| 5 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 948.97 | 651.67 | 3081.92 | 4243.94 |
| 6 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 948.69 | 647.27 | 3982.92 | 5260.7 |
| 7 | Equity Share Capital | 4404.82 | 3935.32 | 4404.82 | 3935.32 |
| 8 | Other Equity (Reserves) | | | 76096.66 | 53449.38 |
| 9 | Earning Per Share (face value of Rs. 10/- each, not annualised for quarterly figures) | 2.15 | 1.65 | 7.00 | 10.78 |
| | Basic: | 2.15 | 1.62 | 7.00 | 10.54 |
| | Diluted: | | | | |

Notes:

1 Brief of Audited Consolidated financial results for the Quarter and year ended March 31, 2025

| PARTICULARS | Quarter ended | | Year ended | |
|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | 31.03.2025 (Un-audited) | 31.03.2024 (Audited) | 31.03.2025 (Un-audited) | 31.03.2024 (Audited) |
| Total Income | 31,813.79 | 25,592.45 | 18690.06 | 99085.18 |
| Profit Before Tax | 1,321.95 | 1,580.79 | 4542.65 | 6482.58 |
| Profit after Tax | 987.06 | 690.00 | 3408.66 | 4282.26 |

The above is an extract of the detailed format of Audited standalone and Consolidatd Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and Company's website "www.apollopipes.com". the same can be accessed by scanning the QR code provided below:



For Apollo Pipes Limited
Sd/-
Sameer Gupta
Chairman & Managing Director

Place: Noida
Date: 10th May, 2025

